



Andhra govt issues NOC to Vedanta to drill 20 onshore oil, gas wells

The Andhra Pradesh government has issued a conditional 'No Objection Certificate' to Vedanta Ltd (Cairn Oil & Gas Division) for drilling 20 onshore wells in Krishna district. According to a recent Government Order, Vedanta Limited (Cairn Oil & Gas Division) has submitted a representation, stating that their firm was awarded the work of development of the Onshore Oil and Gas Field under the Discovered Small Field (DSF) Policy, 2018. Further, they requested to grant a No Objection Certificate (NOC) for drilling wells at 35 locations in the block located in various village limits for Onshore Oil and Gas Development and Production, from the Water Resources Department of Andhra Pradesh, as the Bandar Canal passes through the centre of the proposed block.

PTI

AP govt issues NOC to Vedanta to drill 20 onshore oil, gas wells

Press Trust of India
Amaravati

The Andhra Pradesh government has issued a conditional "No Objection Certificate" (NOC) to Vedanta Ltd (Cairn Oil & Gas Division) for drilling 20 onshore wells in Krishna district.

According to a recent government order, the company submitted a representation, stating that it was awarded the work of development of the Onshore Oil and Gas Field under the Discovered Small Field (DSF) Policy, 2018.

Further, it requested the grant of a NOC for drilling wells at 35 locations in the block located in various vil-



lage limits for Onshore Oil and Gas Development and Production from the Water Resources Department of Andhra Pradesh, as the Bandar Canal passes through the centre of the proposed block.

"After careful examination of the matter, the government hereby issues 'No

No water shall be drawn from irrigation canal sources such as the Bandar Canal, KDS canal network, said the NOC

Objection Certificate' to M/s Vedanta Ltd (Cairn Oil & Gas Division), Mumbai, for drilling 20 Nos. of wells at the locations mentioned at para (2) above subject to the terms & conditions as mentioned at para (3) above," the order said.

The Engineer-in-Chief (Irrigation), Water Re-

sources Department, Vijayawada, the Chief Engineer, Krishna Delta System, Vijayawada, and the Collector of Krishna District shall take necessary action accordingly, it added.

According to the order, the NOC can be issued only from the irrigation point of view and is purely temporary in nature. The applicant shall obtain all required permissions from the departments concerned before commencing operations, as per norms.

No water shall be drawn from irrigation canal sources such as the Bandar Canal, KDS canal network, drainage network, ponds, reservoirs, or any other surface-water source, it said.

Cairn Oil & Gas, a division of Vedanta Ltd, is India's largest private oil and gas exploration production company, contributing approximately a quarter of the country's domestic crude production, with a vision to increase this contribution to 50 per cent through sustainable and responsible practices.

THE COMPASS

Castrol India: Well oiled to grow, but valuations may limit sharp upside

DEVANGSHU DATTA

BP's sale of 65 per cent in Castrol Group Holding (CGHL), which owns 51 per cent in Castrol India, to Stonepeak, an alternate investment firm, has led to traders focusing on Castrol India. BP intends to use cash proceeds from this transaction to reduce its overall debt levels.

As part of the transaction, the entire 100 per cent of CGHL will be transferred to a JV of Stonepeak and BP, with BP holding a minority 35 per cent stake. As required by Sebi, the acquirer has made an open offer for 26 per cent public shareholding in Castrol India at ₹194 per share. The stock has already traded up to the offer price.

This transaction should not have any short-term or medium-term impact on the operational performance of Castrol India. Castrol India's performance for the September quarter of CY25 saw Ebitda margin rising 150 bps year-on-year (Y-o-Y) and 30 bps quarter-on-quarter (Q-o-Q). Castrol India's accounting year is from January to December. Volumes at 59 million litres were up 7 per cent Y-o-Y and met consensus. Management said it would continue brand building, deepening and widening distribution, and launching new products.



The company has excellent brand recognition, and it has a strong balance sheet and good cash-flow generation. An improved product mix should drive volume and margins. The Q3CY25 revenue was ₹1,360 crore, up 6 per cent Y-o-Y. Ebitda was at ₹320 crore, up 13 per cent with margin expansion delivered positive surprise. PAT or profit after tax was held at ₹230 crore and also beat consensus.

The company expanded the network to 150,000 outlets across India, including nearly 40,000 rural outlets and 500 rural express points. About 25-30 per cent of the B2C volume comes from the rural outlets.

The service network includes over 750 Castrol Auto Service centres, around 33,000 independent bike workshops, and about 11,500 multi-brand workshops. The full Auto Care product range

is also available via e-commerce platforms, modern trade channels, and over 67,000 physical outlets. In Q3, it signed an MoU with VinFast Auto India to provide after-sales support for EV (electric vehicle) customers through select workshops.

Volumes stood at 59 million litres, (up 7 per cent Q-o-Q) with growth driven by Personal mobility (volumes up 6 per cent Y-o-Y), Commercial Vehicles or CVs (up 8 per cent) and Industrial segment (low double-digit per cent). Personal mobility contributes nearly 50 per cent of volumes with CV contributing 38-40 per cent and the rest from the Industrial segment.

About 50-55 per cent of the base oil is imported, while the rest is sourced domestically. Lower crude costs equate to lower raw material costs and better gross margins but these have been balanced to some extent by a weaker rupee. The Ebitda guidance is for a margin of 22-25 per cent.

Raw material expenses and costs of goods sold rose 2-3 per cent in Q3CY25 due to optimising raw material sourcing, formulation, and costs incurred in manufacturing. Base oil prices have reduced 3.5 per cent Y-o-Y for year-to-date (YTD) period. The new launch includes Castrol All-in-One Helmet Cleaner – foam spray solution address-

ing helmet hygiene.

Castrol is the largest private lubricant player with 220 million litres installed capacity and 20 per cent market share in automobiles. Its MNC parentage is backed by BP, and it has global expertise to create advanced formulations to sustain market leadership. The company is looking to diversify revenue streams through AutoCare and Chemical Management Services (CMS) including investments in EV fluids ("Castrol ON") and cooling solutions for data centres.

Apart from excellent margins and return ratios, it has a debt-free balance sheet with ₹1,353 crore in cash reserves, and strong dividend payout record. Strong free cash flow generation, minimal capex requirements, high return on equity (RoE) and dividend make Castrol India an attractive investment. However, it has very high valuations compared to peers like Gulf Oil and of course, it is exposed to price volatility in global crude markets as well as rupee weakness. According to Bloomberg, three of the five analysts polled in December have a buy/add rating, while the remaining two have hold. Their average one-year target price is ₹232.4 for the stock, which closed 2.11 per cent higher at ₹193.60 on the BSE on Friday.



Petro products exports decline

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, December 26

INDIA'S EXPORTS OF petroleum products fell 7.9% year-on-year to \$26.6 billion during April-November of FY26, down from \$28.9 billion in the same period last year, according to data from the Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC). In volume terms, however, exports remained largely unchanged at 42.3 million

tonnes during the period.

Imports of refined oil products stood at \$14.7 billion during the eight-month period, against \$15.9 in Apr-Nov of FY25. The country imported 34 million tonnes of petroleum products, marginally down by 1% from the same period of last fiscal.

In November, six refineries in India and Türkiye exported €807 million of refined oil products partially made from Russ-

ian crude to the EU (€465 million), the US (€110 million), the UK (€51 million), Australia (€150 million), and Canada (EUR 31 million), as per data from Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). While there was an 8% month-on-month reduction in the refineries' exports to sanctioning countries led chiefly by the EU, US, and UK, who recorded monthly reductions of 32%, 40%, and 62%, respectively.

UNIVERSAL ACCESS TO CLEAN COOKING FUEL REMAINED A KEY FOCUS

Oil Ministry drives clean energy, infra and security push in 2025

NEW DELHI: The Ministry of Petroleum & Natural Gas pursued a broad-based strategy in 2025 to ensure affordable energy access, boost domestic production, strengthen infrastructure, promote cleaner fuels and reinforce national energy security, aligning its efforts with India's priorities of energy access, efficiency, sustainability and security.

Universal access to clean cooking fuel remained a key focus. Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), beneficiaries rose to about 10.35 crore as of December 1, 2025. To achieve LPG saturation, the government cleared 25 lakh additional connections for FY26 and simplified eligibility norms through a single Deprivation Declaration.

Affordability was supported by a targeted subsidy of Rs 300 per 14.2-kg LPG cylinder for up to nine refills annually for PMUY households. As a result, average per capita LPG consumption increased from about three refills in 2019-20 to 4.47 in FY25 and a pro-rated 4.85 refills in FY26, reflecting sustained adoption. Subsidy targeting improved with faster Aadhaar-based biometric authentication, covering 71 per cent of PMUY and 62 per cent of non-PMUY consumers by December 2025. A nationwide drive launched in November enabled free, mobile-



Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), beneficiaries rose to about 10.35 crore as of December 1, 2025

based authentication.

Consumer safety also improved through over 12.12 crore free LPG safety inspections and replacement of 4.65 crore hoses at discounted rates.

Petroleum marketing infrastructure expanded significantly. More than 90,000 retail outlets now support digital payments through over 2.71 lakh POS terminals. Doorstep fuel delivery improved with over 3,200 bowlers, while nearly all outlets were equipped with toilets under Swachh Bharat

norms.

Electric mobility gained momentum. Nearly 8,932 EV charging stations were installed at fuel stations under FAME-II, with oil marketing companies adding over 18,500 more. The APNA GHAR initiative progressed with over 500 truckers' wayside amenities, enhancing road safety and rural employment.

Public sector oil marketing companies (OMCs) are developing 4,000 integrated Energy Stations between 2024-25 and

Highlights

- » Affordability was supported by a targeted subsidy of Rs 300 per 14.2-kg LPG cylinder for up to nine refills annually for PMUY households
- » Petroleum marketing infrastructure expanded significantly. More than 90,000 retail outlets now support digital payments through over 2.71 lakh POS terminals
- » Public sector OMCs are developing 4,000 integrated Energy Stations between 2024-25 and 2028-29

2028-29, offering conventional and alternative fuels, including biofuels, CNG, LNG and EV charging. As of November 2025, 1,064 such stations were operational.

The gas-based economy saw strong progress. Operational natural gas pipelines expanded to 25,429 km by June 2025 from 15,340 km in 2014, with another 10,459 km under construction. Completion will enable a fully connected national gas grid. To reduce regional cost disparities, about 90 per cent of pipe-

lines are now covered under the Unified Pipeline Tariff regime.

City Gas Distribution expanded to 307 areas, with PNG household connections reaching about 1.57 crore and CNG stations exceeding 8,400 by September 2025.

Revised gas allocation guidelines improved alignment with consumption patterns and reduced price volatility. Under the SATAT initiative, over 130 compressed biogas plants were commissioned by November 2025, with mandatory blending obligations beginning in FY26.

Biofuels recorded major gains, with ethanol blending in petrol averaging 19.24 per cent in 2024-25, delivering foreign exchange savings of over Rs 1.55 lakh crore and lower emissions.

Advanced biofuels progressed under the JI-VAN scheme, while Sustainable Aviation Fuel initiatives advanced with indicative blending targets set from 2027 onwards. Upstream reforms, including the Oilfields Amendment Act, 2025, led to the award of 172 exploration blocks, attracting investments of about \$4.36 billion.

Strategic petroleum reserves were strengthened, and overseas investments by public sector firms continued, supporting India's energy security and long-term resilience.

AGENCIES

CSR spending of CPSEs surged 31% to record ₹6,437 cr in FY25

Top 10 firms accounted for 59.5% of total expenditure compared to 56.7% in FY24

HARSH KUMAR

New Delhi, 26 December


Corporate social responsibility (CSR) spending by a total of 183 central public-sector enterprises (CPSEs) surged by 31.1 per cent in FY25 to a record ₹6,437 crore, compared to the preceding financial year, according to the public enterprises survey for FY25.

The top five CPSEs undertaking CSR expenditure were Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) (₹929.08 crore), Indian Oil Corporation Ltd (IOC) (₹583.04 crore), NTPC Ltd (₹362.94 crore), Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL) (₹360.19 crore) and Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) (₹358.14 crore).

The top 10 CPSEs contributed 59.48 per cent of the total CSR expenditure in FY25 compared to 56.72 per cent in FY24.

Starting April 1, 2014, the government mandated that all companies, including CPSEs, with a net worth of at least ₹500 crore, a minimum turnover of ₹1,000 crore, or a minimum net profit of ₹5 crore, spend at least 2 per cent of their average net profit from the preceding three financial years on CSR activities.

Activity-wise distribution showed that the largest share of CSR spending was allocated to eradication of hunger and poverty, healthcare, and sanitation, which accounted for 47.8 per cent of the total expenditure. This was fol-



Activity-wise CSR spending by CPSEs Share in total (%)



Others include armed forces welfare, contribution to technology incubators, contribution to technology incubators, disaster management, Slum area development, Source: DPE survey

lowed by education and skill development, representing 25 per cent

of the total CSR outlay.

However, empowerment of

women and other economically backward sections accounted for 2.48 per cent of the total spending and environmental sustainability represented 4.25 per cent of the total expenditure.

Net profit of operating CPSEs fell 9.6 per cent year-on-year (Y-o-Y) in FY25 slipping to ₹2.91 trillion compared with ₹3.22 trillion in FY24.

The report further shows that the aggregate net profit of CPSEs in the "manufacturing, processing and generation" sector has resulted in a 33.9 per cent decline. The mining and exploration sector also shows a decrease in net profit by 3.6 per cent.

However, the net profit of CPSEs in agriculture and services sectors increased by 18 per cent and 26.1 per cent, respectively in FY25.

Overall, employee count in CPSEs increased by 1.6 per cent to 1.54 million in FY25 on the back of a 3.7 per cent decline in regular employees. The number of casual/contract workers rose 7.7 per cent during the same year.

The survey also revealed that the number of women employees in CPSEs declined 1.2 per cent in FY25 to 76,685, constituting 9.8 per cent of total employees.

It also noted that 32.4 per cent of total women in CPSEs are present at the managerial/executive level.

About 8.7 per cent is at the supervisory level and 58.9 per cent in the workers' category.

आंध्र सरकार ने वेदांता लिमिटेड को 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने के लिए एनओसी जारी की

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा जिले में 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने के लिए वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑयल एंड गैस डिवीजन) को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है। हालिया सरकारी आदेश के अनुसार वेदांता लिमिटेड ने एक आवेदन देकर कहा था कि उसकी कंपनी को खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति, 2018 के तहत तटीय तेल और गैस क्षेत्र के विकास का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, कंपनी ने 35 स्थानों पर तटीय तेल और गैस के विकास और उत्पादन के लिए कुएं खोदने हेतु आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया था, क्योंकि प्रस्तावित ब्लॉक के बीच से बंदर नहर गुजरती है। आदेश में कहा गया, मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, सरकार शर्तों के अधीन मुंबई स्थित वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑयल एंड गैस डिवीजन) को 20 कुएं खोदने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है। इसमें आगे कहा गया कि विजयवाड़ा स्थित जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (सिंचाई), कृष्णा डेल्टा प्रणाली के मुख्य अभियंता, विजयवाड़ा, तथा कृष्णा जिले के जिलाधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आदेश के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल सिंचाई के दृष्टिकोण से जारी किया गया है और पूरी तरह अस्थायी प्रकृति का है। आवेदक को काम शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से सभी आवश्यक अनुमतियां निर्धारित मानकों के अनुसार प्राप्त करनी होंगी।

आंध्र सरकार ने वेदांता लिमिटेड को 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने के लिए एन.ओ.सी. जारी की

अमरावती (एजेंसी): आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा जिले में 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने के लिए वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑयल एंड गैस डिवीजन) को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किया है। यह अनुमति डी.एस.एफ. नीति 2018 के तहत दी गई है और केवल सिंचाई के दृष्टिकोण से अस्थायी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि काम शुरू करने से पहले कंपनी को सभी संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियां लेनी होंगी। इसके अलावा, कंपनी ने 35 स्थानों पर तटीय तेल और गैस के विकास और उत्पादन के लिए कुएं खोदने हेतु आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया था, क्योंकि प्रस्तावित ब्लॉक के बीच से बंदर नहर गुजरती है।

सीएसआर पर खर्च 31% बढ़ा

हर्ष कुमार

नई दिल्ली, 26 दिसंबर

वित्त वर्ष 2025 के दौरान देश के कुल 183 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च 31.1 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक उद्यमों के सर्वे के मुताबिक सीपीएसई ने सीएसआर पर रिकॉर्ड 6,437 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

सीएसआर पर खर्च करने वाली शीर्ष सीपीएसई में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने 929.08 करोड़ रुपये, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 583.04 करोड़ रुपये, एनटीपीसी लिमिटेड ने 362.94 करोड़ रुपये, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 360.19 करोड़ रुपये और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 358.14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

वित्त वर्ष 2025 में सीएसआर पर किए गए कुल खर्च में शीर्ष 10 सीपीएसई का योगदान 59.48 प्रतिशत रहा है, जो वित्त वर्ष 2024 में 56.72 प्रतिशत था।

सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से कम से कम 500 करोड़ रुपये नेटवर्थ, न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपये टर्नओवर या 5 करोड़ रुपये न्यूनतम शुद्ध मुनाफा कमाने वाली सीपीएसई सहित सभी कंपनियों के अपने 3 साल के औसत शुद्ध मुनाफे का 2 प्रतिशत सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया था।



केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के आंकड़े

■ वित्त वर्ष 2025 के दौरान देश के कुल 183 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने सीएसआर पर रिकॉर्ड 6,437 करोड़ रुपये खर्च किए

■ इस दौरान सीएसआर का सबसे अधिक पैसा भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पर खर्च हुआ, जो कुल आवंटन का 47.8 प्रतिशत

■ इस दौरान नियमित कर्मचारियों की संख्या 3.7 प्रतिशत कम हुई है और ठेके के कर्मचारियों की संख्या 7.7 प्रतिशत बढ़ी

■ महिला कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2025 में 1.2 प्रतिशत कम होकर 76,685 रह गई है, जो सीपीएसई में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का 9.8 प्रतिशत

सीएसआर के तहत तमाम काम आते हैं। अगर काम के आधार पर देखें तो सीएसआर का सबसे अधिक पैसा भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पर खर्च किया गया है। इन मदों में किया गया खर्च कुल सीएसआर आवंटन का 47.8 प्रतिशत

है। इसके बाद शिक्षा और कौशल विकास पर 25 प्रतिशत खर्च किया गया है। वहीं महिला सशक्तीकरण व आर्थिक रूप से पिछले वर्ग पर कुल खर्च का 2.48 प्रतिशत खर्च किया गया है। वहीं पर्यावरण सततता पर 4.25 प्रतिशत खर्च किया गया है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान

परिचालन वाली सीपीएसई का शुद्ध मुनाफा पिछले साल की तुलना में 9.6 प्रतिशत कम हुआ है। यह गिरकर 2.91 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में 3.22 लाख करोड़ रुपये था।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 'विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन' सेक्टर में काम करने वाली सीपीएसई का कुल मिलाकर शुद्ध मुनाफा 33.9 प्रतिशत कम हुआ है, जबकि खनन व अन्वेषण क्षेत्र का शुद्ध मुनाफा 3.6 प्रतिशत कम हुआ है। बहरहाल वित्त वर्ष 2025 के दौरान कृषि व सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों का शुद्ध मुनाफा क्रमशः 18 प्रतिशत और 26.1 प्रतिशत बढ़ा है।

सीपीएसई में कुल कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2025 के दौरान 1.6 प्रतिशत बढ़कर 15.4 लाख हो गई, जबकि इस दौरान नियमित कर्मचारियों की संख्या 3.7 प्रतिशत कम हुई है और ठेके के कर्मचारियों की संख्या 7.7 प्रतिशत बढ़ी है।

सर्वे से यह भी पता चलता है कि सीपीएसई में महिला कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2025 में 1.2 प्रतिशत कम होकर 76,685 रह गई है, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 9.8 प्रतिशत है।

इसमें यह भी कहा गया है कि कुल महिलाओं में 32.2 प्रतिशत इस समय प्रबंधन/एग्जिक्यूटिव के स्तर पर काम रही हैं, जबकि 8.7 प्रतिशत सुपरवाइजर के स्तर पर और 58.9 प्रतिशत कामगार की श्रेणी में हैं।

ईवी चार्जिंग से लेकर एनर्जी स्टेशन तक हर मोर्चे पर रहा जोर

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साल-2025 का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, ऊर्जा तक पहुंच, सामर्थ्य, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्राप्ति की

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अब जबकि साल 2025 सम्पन्न होने के करीब पर हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा पहलों के माध्यम से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2025 के दौरान ऊर्जा तक पहुंच, सामर्थ्य, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्राप्ति की। तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन, शोधन, वितरण एवं विपणन, साथ ही इनके आयात, निर्यात एवं संरक्षण के लिए उत्तरदायी इस मंत्रालय ने इस साल कई अहम कदम उठाए, जिससे अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए तेल और गैस आज भी सबसे अहम ईंधन हैं। साल 2025 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऊर्जा को सस्ता, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। इस साल मंत्रालय ने एनर्जी एक्सेस, एनर्जी इफ़ीसिएंसी, एनर्जी स्टोरेज, ईवी चार्जिंग, बायोफ्यूल और गैस पाइपलाइन तक हर मोर्चे पर काम किया ताकि आम लोगों को साफ और धरोसेमंद ऊर्जा मिल सके।



हरदीप सिंह पुरी

उज्ज्वला योजना ने रचा इतिहास

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक दिसंबर 2025 तक करीब 10.35 करोड़ महिलाएं लाभार्थी बन चुकी हैं। एलपीजी कनेक्शन को हर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए कनेक्शन देने की मंजूरी दी। अब आवेदन की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। पहले जहां कई तरह के डिकलेरेशन देने पड़ते थे, अब एकल अभाव घोषणा से काम हो जाता है। जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को जल्द योजना का फायदा मिल रहा है।

आधार प्रमाणीकरण से आई पारदर्शिता

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सख्ती सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन तेज किया गया। एक दिसंबर 2025 तक पीएमयूवाई उपभोक्ताओं में 71 प्रतिशत और गैर पीएमयूवाई उपभोक्ताओं में 62 प्रतिशत ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है। नवंबर 2025 में मोबाइल के जरिए फ्री ऑथेंटिकेशन ड्राइव भी चलाई गई। वहीं देशभर में बैसिक सेफ्टी अभियान भी चलाया गया और 12.12 करोड़ से ज्यादा घरों में फ्री सेफ्टी चेक व 4.65 करोड़ एलपीजी होज पाइप रियायती दाम पर बदले गए। जिससे रसोई गैस के इस्तेमाल में सुरक्षा और जागरूकता दोनों बढ़ी।

सस्ती एलपीजी के लिए सख्ती

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 142 किलो सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। साल में 9 सिलेंडर तक ये राहत मिलती है। जिससे एलपीजी के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। 2019-20 में औसतन तीन सिलेंडर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.47 सिलेंडर और वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 4.85 सिलेंडर सालाना ये दिखाता है कि लोग साफ ईंधन को अपनाने लगे हैं।

बायोफ्यूल और ग्रीन एनर्जी पर जोर

पेट्रोल में 19.24% इथेनॉल ब्लेंडिंग से 1.55 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हुई और 130 से ज्यादा सीबीजी प्लांट शुरू हुए। एसएफए के लिए 2027 से एक फीसदी ब्लेंडिंग का रोडमैप भी तैयार हो चुका है। तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 के लागू होने और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना के साथ अपस्ट्रीम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत, 3.78 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 172 ब्लॉक आवंटित किए।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा... 90,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट सुविधा, 2.71 लाख पीओएस मशीनें, 3,200 से ज्यादा बाउजर से डोर-टू-डोर फ्यूल डिलीवरी, लगभग सभी पंपों पर शीघ्रता, कई जगह पुरुष और महिला के लिए अलग सुविधा, जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाने में इस साल मंत्रालय खासा सफल रहा। वहीं इस दौरान एफएमई-दो के तहत 8,932 ईवी चार्जिंग स्टेशन जबकि तेल विपणन कंपनियों ने अपने संसाधनों से 18,500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। 2024-29 तक 4,000 एनर्जी स्टेशन बनाने की योजना है। एक नवंबर 2025 तक 1,064 एनर्जी स्टेशन शुरू हो चुके हैं, जहां पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी, एलएनजी, बायोफ्यूल और ईवी चार्जिंग की सुविधा मिलती है। गैस पाइपलाइन व वन नेशन, वन गिड में साल 2014 में 15,340 किमी पाइपलाइन थी जबकि जून 2025 तक ये आंकड़ा 25,429 किमी तक पहुंच चुका है और अभी 10,459 किमी पाइपलाइन पर काम जारी है। वन नेशन, वन गिड, वन टेरिफ से अब देशभर में गैस ट्रांसपोर्ट चार्ज लगभग एक जैसा हो गया है। सिटी गैस और सीएनजी का विस्तार हुआ है। 307 भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क, 1.57 करोड़ पीएनजी घरेलू कनेक्शन से गैस सस्ती और ज्यादा लोगों तक पहुंची है।